

March 07, 2017

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex Bandra (E)
Mumbai – 400 051

BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400001

Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.
Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C62, G
Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 098

Scrip Code: Reference: NSE Scrip Symbol : BLS
BSE Scrip Code : 540073
MSEI Scrip Symbol : BLS

**Subject: Publication in Newspaper EGM Notice under Regulation 47 (1) (d) of SEBI (LODR),
Regulations, 2015**

Dear Sir / Madam,


Please find attached herewith copies of the Newspaper clippings regarding publication of EGM Notice of the Company with e-voting details in The Financial Express (English edition) & Jansatta Express (Hindi edition) on March 07, 2017.

You are requested to take the same on your records.

The aforesaid Newspaper clippings is also be uploaded on Company's website.

Yours faithfully,

For BLS International Services Limited



Bala Ji Srivastava
Company Secretary
M. No. A33952
Address: P-42, West Patel Nagar,
New Delhi – 110008.



Encl: As above

विजय हजारे के

रूट और वोक्स के अर्धशतकों से इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया

कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 6 मार्च (भाषा)।

महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली

सेंट जॉस, 6 मार्च (एफपी)।

Registered Office
Date: 06.03.2017
Place: New Delhi

Place: Rohak
Date: 06.03.2017
(Company Secretary & Compliance Officer)
FCS-6817

BLS International Services Limited

CIN: L51909DL1983PLC018907 Website: http://www.blsinternational.com
Regd. Office: G-4B-1, Extension Mohan Co-operative Ind. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044
Email: investors@blsinternational.net, Contact no. +91 11 45795002 Fax: +91 11-23755264

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the Third Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of BLS International Services Limited, the ("Company") will be held on Friday, March 31, 2017 at 2:00 P.M. at Indian Social Institute Auditorium 10 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003 to transact the business as stated in the Notice thereof. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to the Members enabling them to cast their vote electronically for all the Resolution(s) set out in the EGM Notice dated March 6, 2017 through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has completed dispatch of notice of Extra Ordinary General Meeting to all the members on March 06, 2017.

All the Members are hereby informed that:-

- the remote e-voting period commences on Tuesday, March 28, 2017, from 9:00 a.m. and ends on Thursday, March 30, 2017 at 5:00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on March 30, 2017. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of EGM Notice but on or before the cut-off date i.e. March 24, 2017 may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining login ID and password. Further, if the Member is already registered with CDSL remote e-voting platform, then he can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.
- Members may note that:-
 - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM.
 - A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. March 24, 2017, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper; and
 - The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM, but shall not be entitled to cast their vote again.
- The Notice of EGM is available on the Company's website i.e. www.blsinternational.com and CDSL's website www.cdslindia.com, www.evotingindia.com.

The Board of Directors have appointed Ms. Dasvinder Kaur, Practicing Company Secretary (COP No. 15232), as Scrutinizer for conducting the voting / poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the EGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at help section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or on Helpdesk No.: 1800-200-5533.

All the relevant documents pertaining to the items of business to be transacted in the EGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (barring Saturdays and Sundays) between 11:00 A.M. to 1:00 P.M. prior to EGM.

By the order of Board of Directors of
BLS International Services Limited
Sd/-

Bala J Srivastava
Company Secretary
M. No. A33952

Date : 06-03-2017
Place : New Delhi

कॉर्पोरेट लॉगल डिपार्टमेंट, कोटक महिन्द्रा बैंक लि., चतुर्थ तल्ल अमद न. 9, आर्यभट्टा रोड, कल्याणी, हरियाणा
फिन्टेक, एमिटी, इन्फो मॉड्युलर इन्टरनेशनल सेवार्स प्राइवेट लि., नई दिल्ली - 110003
पंजीकृत कार्यालय: 27 बॉकेमी, सी 27, 'बी ब्लॉक', बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स, बन्दरा (ई) मुम्बई - 400051
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी: LG5110MH1985PLC038137

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रयत्न अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जारी सूचना के अनुसार कोटक महिन्द्रा बैंक (पूर्व में आइएनजी वेंच्य बैंक लि. जिसे आगे बैंक के नाम के पास बंधक अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री हेतु नोटिस दिया जाता है। यतः ऋणी मिसस ग्रेट इण्डियन नॉट पेडेड (पंजीकृत कार्यालय एम-77/118, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001) बैंक की ऋण राशि रूप में 13,33,83,620.15 को भविष्य के दस्तावेज दौ पर नियत दिनांक तक ब्याज तथा लागतों का बैंक को पुनर्मुगतान सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 15 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 30.06.2015 को निर्गमित नोटिस के अंतर्गत 60 दिवस के भीतर करने में असमर्थ रहे। यतः बैंक द्वारा इसके प्राधिकृत अधिकारी के जरिये उसको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित सम्पत्तियों का सरफेसी अधिनियम 2002 के प्राधिकृत अधिकारी के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कच्चा ले लिया है। जबकि इस नोटिस के अंतर्गत उक्त ऋणराशि की अदायगी में असफल रहे, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने अनुसूचित सम्पत्तियों का इच्छुक क्रेताओं से मुहूर्त पर निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर नीलामी की प्रक्रिया के जरिये बेचने का निश्चय किया।

सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	इंग्रैड (जमा धरोहर राशि)	मुहूर्त निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने/नीलामी की दिनांक व समय
गत सम्पत्ति संख्या 7 (2Bays)सेक्टर 32 एचयूडीए, गुडगांव, हरियाणा (प्लॉट पर निर्माण गणभग)	रु. 700.00 लाख	रु. 70.00 लाख	दिनांक 27.03.2017 को एरो सिटी उपरोक्त वर्णित कार्यालय पते पर प्रातः 11:30 से पूर्व	दिनांक 27.03.2017 को उसी पते पर दोपहर 12:30 बजे

शर्तें:-

- हे तथा वहां जो कुछ भी है के आधार पर होगी। ऊपर लिखित सम्पत्ति से संबंधित संपूर्ण विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है।
- सम्पत्तियों/दस्तावेजों का निरीक्षण निश्चित दिनांक एवं समय पर किया जा सकता है। बोली दस्तावेज/प्राचुर में विक्रय व अचल सम्पत्तियों के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अपनी मुहूर्त निविदाएं प्राधिकृत अधिकारी के पास उपरोक्त पते पर भेज सकते हैं। निविदाएं धरोहर राशि/रूप में 70 लाख (आठ लाख) इंग्रैड के द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, खाता संख्या 09580125223001 के पक्ष में, नई दिल्ली पर देय के सा 27.03.2017 को प्रातः 11:30 बजे से पूर्व भेज सकते हैं। एक बार बोली जमा कराने के बाद उसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।
- दिनांक 27.03.2017 को अपराह्न 12.00 उसी पते पर बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी तथा इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी बोलीदाताओं को अपने प्रस्तावित मूल्य बढाने हेतु पारस्परिक बोली में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।
- यदि कोई भी बोली राशि का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) तुरन्त अगले कार्यदिवस के उपरान्त नहीं कोटक महिन्द्रा बैंक लि. 125223001 पक्ष में नई दिल्ली पर देय आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवाना आवश्यक है तथा सफलतम बोलीदाता द्वारा शेष राशि का विक्रय की पुष्टि की दिनांक से 15 दिनों के भीतर किया जाना होगा। धरोहर राशि एवं इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा विक्रय राशि पर कोटि सफलतम बोलीदाता बिक्री के शर्तों के अर्हतलना या मुगतान अनुसूची में कोई भी व्यतीक्रम करता है तो जमा धरोहर राशि या 25 पर बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
- एचयूडीए के समस्त खर्चें बकाया सम्मिलित करते हुए यदि कोई हो तो/कर/नगर निगम के या अन्य किसी प्राधिकरण के युटिलिटी बिल/पंजीकरण शुल्क इत्यादि विक्रय प्रमाण पत्र हेतु पंजीकरण के खर्चें बहन करेगा।
- विक्रय राशि का 1% आयकर अधिनियम की धारा 194 1ए के अंतर्गत टीडीएस काटता है तो विक्रय प्रमाण पत्र फार्म 26 वच्यवी तथा के चालान के साक्ष्य की प्राप्ति तथा समस्त विक्रय राशि की वसूली के उपरान्त निर्गमित किया जाएगा।
- स के अंतर्गत प्रस्तावित सम्पत्ति के संबंध में या किसी भी अधिकरण के कोई भी बकाया अर्थात् पानी/बिजली के बकाये, सम्पत्ति व लक यदि हे तो कोई भी आज्ञा/अनापत्ति हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता।
- को किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा निरस्त करने, समस्त प्रस्तावों/बोलियों को बिना कोई कारण बताये स्थगित/रद्द करने, या या किसी पूर्व सूचना के संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
- यत्नतम जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर कोई प्रथम बैंक के अतिरिक्त नहीं है। इच्छुक पक्ष अपनी संतुष्टि हेतु सम्पत्ति के संबंध में आक कर सकते हैं। बैंक उक्त सम्पत्ति के संबंध में सम्पत्ति की उपयुक्तता/शीर्षक हेतु कोई आश्वासन अथवा कोई प्रतिनिधित्व या सूचना हेतु श्री एन.के. आहजा (मो. नं. 09810661616) या के.के. भल्ला (मो. नं. 09958100264) से उपरोक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के तहत 15 दिनों की वैधानिक सूचना

ग्राहकों/बंधककर्ताओं को पुनर् द्वारा अधिभूत किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि, अद्यतन ब्याज एवं खर्चों सहित इस नोटिस के अंतर्गत मुगतान कर देवे अन्यथा प्रतिभूति आस्थितियों उपरोक्त वर्णित नियमों व शर्तों के अनुसार बेच दी जाएगी। यदि इस विक्रय सूचना के अंतर्गत कोई भी बिसंगति होती है तो ऐसे मामलों में अंतर्जाली समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान ले लेगा तथा ऐसे मामले में अंतिम मान्य प्रति माना जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी, कोटक महिन्द्रा बैंक लि. दिनांक: 06.03.2017

Certified True Copy

For BLS International Services Limited

Company Secretary

नई दिल्ली

Tata Motors unwraps Tiago AMT with ₹5.39 lakh price tag

New Delhi, March 6: Tata Motors on Monday launched its hatchback Tiago with automated manual brand across the passenger vehicle market," said Mayank Pareek, Tata Motors President, Passenger

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
DELHI ZONAL OFFICE
फोन: (011) 26

WHEREAS, The under Reconstruction of Financial Sub-Section (12) of Section mentioned below calling upon receipt of the said Notice. The borrower and guar and the public in general the expense of powers conferred The borrower and the any dealings with the proper the subsequent recoveries.

BLS International Services Limited

CIN: L21909DL1983PLC018902 Website: <http://www.blsinternational.com>
Regd. Office: G-4B-1, Extension Mohan Co-operative Ind. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044
Email: investors@blsinternational.net, Contact no: +91 11 45795002; Fax: +91 11-23755264

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the Third Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of BLS International Services Limited, the ("Company") will be held on Friday, March 31, 2017 at 2:00 P.M. at Indian Social Institute Auditorium 10 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003 to transact the business as stated in the Notice thereof. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to the Members enabling them to cast their vote electronically for all the Resolution(s) as set out in the EGM Notice dated March 6, 2017 through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has completed dispatch of notice of Extra Ordinary General Meeting to all the members on March 06, 2017. All the Members are hereby informed that:-

- (i) the remote e-voting period commences on Tuesday, March 28, 2017, from 9:00 a.m. and ends on Thursday, March 30, 2017, at 5:00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on March 30, 2017. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- (ii) In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of EGM Notice but on or before the cut-off date i.e. March 24, 2017 may write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com for obtaining login ID and password. Further, if the Member is already registered with CDSL remote e-voting platform, then he can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.
- (iii) Members may note that:-
 - (a) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM.
 - (b) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. March 24, 2017, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper; and
 - (c) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM, but shall not be entitled to cast their vote again.
- (iv) The Notice of EGM is available on the Company's website i.e. www.blsinternational.com and CDSL's website www.cdsindia.com, www.evotingindia.com.

The Board of Directors have appointed Ms. Dasvinder Kaur, Practicing Company Secretary (COP No. 15232), as Scrutinizer for conducting the voting, poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the EGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at help section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or on Helpdesk No. 1800-200-5533.

All the relevant documents pertaining to the items of business to be transacted in the EGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (barring Saturdays and Sundays) between 11:00 A.M. to 1:00 P.M. prior to EGM.

By the order of Board of Directors of
BLS International Services Limited

Sd/-
Bala Ji Srivastava
Company Secretary
M. No. A33952

Date : 06-03-2017
Place : New Delhi

and Administration) Rules Obligations and Disclosure the members of the Com (including e-voting) on the dated 23rd January, 2017.

Mr. R. S. Bhatia, Scrutinizer Postal Ballot voting (including Postal Ballot Forms and e-voting) at 5:00 p.m. being the last date and submitted his report on Based on the Scrutinizer's Report Postal Ballot are as under:

Resolutions	Type of Resolution
Increase in Authorized Share Capital of the Company and consequent alteration in the Memorandum of Association of the Company	Ordinary Resolution
Issue of Bonus Shares by way of Capitalisation of Free Reserves	Ordinary Resolution

Based on the report of the Scrutinizer Postal Ballot Notice stands approved by the members.

B) Record Date for Issue
Notice is hereby given to a Scrutinizer for conducting the voting, poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the EGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at help section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or on Helpdesk No. 1800-200-5533.

The Postal Ballot results along with date intimation have been posted on the website www.abmintl.in and the same will be available on the website of the National Stock Exchange (NSE) where the equity shares are listed.

Place: New Delhi
Date: 6th March, 2017

Certified True Copy

For BLS International Services Limited